

## गणति की समस्याओं को हल करने के लिये बैक्टीरिया

**स्रोत: द हट्टि**

सथिटिक जीव वजिज्ञान में हालिया प्रगत, विशेष रूप से कोलकाता स्थति साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फजिकिस् में गणतीय गणना करने हेतु बैक्टीरिया इंजीनियरिंग, इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

- शोधकर्त्ताओं ने [\[संयुक्त संघीय राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सूची\]](#) जैविक कंप्यूटर के रूप में कार्य करने के लिये तैयार किया है, जो गणतीय समस्याओं को हल करने में सक्षम है, अर्थात् यह निर्धारित करना कि कोई संख्या **अभाज्य है या कोई अक्षर स्वर है, आदि**
  - इसे **आनुवंशिक चक्र की प्रक्रिया के पश्चात्** प्राप्त किया गया था, जनिहें रासायनिक प्रेरकों द्वारा सक्रिय किया जा सकता है, जिससे ये बैक्टीरिया **कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क (ANN) की** तरह व्यवहार कर सकते हैं।
  - टीम ने **बैक्टोन्यूरोन्स विकसित किये**, जो कएिसे बैक्टीरिया होते हैं जो तंत्रिका नेटवर्क में **न्यूरोन्स की तरह कार्य करते हैं।**
    - ये बैक्टोन्यूरोन्स रासायनिक आगतों को संसाधित करते हैं और विशिष्ट गणनाओं के आधार पर फ्लोरोसेंट प्रोटीन का उत्पादन करते हैं।
  - इसमें गणतीय समस्याओं को रासायनिक यौगिकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा प्रदर्शित बाइनरी कोड में परिवर्तित करके, बैक्टीरिया संबंधी प्रश्नों का उत्तर **फ्लोरोसेंट संकेतों के साथ "हाँ" या "नहीं" में दे सकते हैं।**
- इंजीनियर बैक्टीरिया केवल सरल कार्य ही नहीं कर सकते; ये अनुकूलन समस्याओं को भी हल कर सकते हैं, जैसे कि एक पाई को एक नश्चिति संख्या में सीधे कट लगाकर कतिने टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, इसकी गणना करना आदि।
  - यह क्षमता बताती है कि बैक्टीरिया कंप्यूटर उत्तरोत्तर अधिक जटिल कम्प्यूटेशनल कार्यों को संभाल सकते हैं, जिससे संभावित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों को बढ़ावा मिल सकता है।

और पढ़ें: [कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क](#)